



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ 1938 (श0)

(सं0 पटना 498) पटना, शुक्रवार, 17 जून 2016

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

9 जून 2016

सं0 07/नि०(विधि-06) के०सह०अधि०-03/2009-5274—चूंकि, इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 3856 दिनांक 23.08.2013 द्वारा परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, लहेरियासराय, दरभंगा के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री कुमार रवि, जिला पदाधिकारी, दरभंगा को दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, लहेरियासराय, दरभंगा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक बैंक में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, अजय कुमार चौधरी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा-44(2) एवं तदनुसार बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 64(2) के अन्तर्गत, श्री चन्द्रशेखर सिंह, जिला पदाधिकारी, दरभंगा को परिसमापनाधीन दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, लहेरियासराय, दरभंगा का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आदेश से,
अजय कुमार चौधरी,
निबंधक, सहयोग समितियाँ ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 498-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>